

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 109

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

इटावा में सिंह सफारी पार्क का विकास

109. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु पर्यटन केंद्रों की स्थापना करने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार इटावा, उत्तर प्रदेश में स्थित सिंह सफारी पार्क को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) उत्तर प्रदेश राज्य में आज की तारीख तक स्थापित अथवा भविष्य में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पर्यटन स्थलों की कुल संख्या कितनी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन का दायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए अपनी स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास और प्रसाद- तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में इटावा स्थित इटावा सिंह सफारी पार्क विकसित करने का प्रस्ताव वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ड.): पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

इटावा सिंह सफारी पार्क के विकास के संबंध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 109 के भाग (ड) के उत्तर में विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.	योजना	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	स्वदेश दर्शन	श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	99.97
2	स्वदेश दर्शन	चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	69.45
3	स्वदेश दर्शन	शाहजहाँपुर-बस्ती-अरहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ़-उन्नाव-कौशांबी-मिर्जापुर-गोरखपुर-कैराना-डूमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़ का विकास	65.61
4	स्वदेश दर्शन	बिजनौर - मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर-सलेमपुर-घोसी-बलिया-अम्बेडकरनगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चंदौली-मिश्रीख-भदोही का विकास	67.51
5	स्वदेश दर्शन	कालिंजर किला (बांदा) - मरहर धाम (संत कबीर नगर) - चौरीचौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर) - मवाहर स्थल (घोसी) - शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	33.17
6	स्वदेश दर्शन	अयोध्या का विकास	127.21
7	स्वदेश दर्शन	जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोयडा-खुर्जा-बाँदा का विकास	12.03
8	स्वदेश दर्शन	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपट्टन मंदिर (बलरामपुर) और बटवासनी मंदिर (डोमरियागंज) का विकास	15.76
9	प्रशाद	मेगा टूरिस्ट सर्किट के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास (चरण-II)	14.93
10	प्रशाद	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण।	9.36
11	प्रशाद	वाराणसी का विकास	20.40
12	प्रशाद	गंगा नदी, वाराणसी में कूज पर्यटन	10.72
13	प्रशाद	प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का विकास - चरण II	44.60
14	प्रशाद	गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विकास	39.74
